

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

बौद्धिक संपदा नीति

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक २२ फरवरी को मीटिंग संख्या २/२०१३ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से भेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेंगे।

बौद्धिक संपदा नीति

बौद्धिक संपदा का सामान्य अर्थ कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क या व्यापारिक रहस्य का कोई रूप होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार इसकी परिभाषा "मन की उत्पत्तियाँ" है। बौद्धिक संपदा में नए आविष्कार, नयी रचनाएँ, नवोन्मेष, नयी खोज, किए गए नए सुधार, कंपनियों द्वारा प्राप्त किये गए अथवा संगृहीत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार से संबंधित रहस्य और गोपनीय सूचनाएँ शामिल होती हैं।

इंडोरामा वेंचर्स का अपने कारोबार में विकसित बौद्धिक संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व है। हमारी कॉर्पोरेट नीति है कि हम दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का सम्मान करें, क्योंकि हम भी दूसरों से अपने बौद्धिक संपदा अधिकार का सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों पर हमारी नीति बौद्धिक संपदा से जुड़े कानूनों और नियमों के अनुसार अपनी बौद्धिक गतिविधियों से जनित सूचना की रक्षा करने और उस पर अधिकारों का अधिकाधिक उपयोग करने, और तृतीय पक्षों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का विधिक सम्मान करने के लिए निगरानी रखना है। हमारे पास अपने ट्रेडमार्क और ब्रांड पंजीकृत करने एवं उन्हें अपने उपयोग हेतु संरक्षित रखने की लिए एक निश्चित व्यवस्था है। हम किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकार का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से खरीदकर अथवा किराये पर लेकर जानबूझकर उल्लंघन नहीं करेंगे।

सॉफ्टवेयर का उपयोग

हम कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयरों को वैध स्रोतों से खरीदेंगे ताकि कंपनी को उस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो।

हमारी कंपनी की यह नीति है कि हम लाइसेंसकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल इसके लाइसेंस के समझौते की शर्तों के अनुसार ही करें। लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन अवैध है और इसके किये कंपनी को अभियोजन और मौद्रिक दंड लग सकता है। अतः कंपनी के कर्मचारियों को आईटी विभाग के प्रमुख की अनुमति के बिना निम्न में से कोई भी कार्य करना निषेध है।

- गैर-कम्पनी कंप्यूटर पर कंपनी के सॉफ्टवेयर को स्थापित करना;
- किसी भी कारण से किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की प्रति बनाना;
- कम्पनी के किसी भी कंप्यूटर पर कोई अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित करना;

कंपनी इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय कंपनी के स्वामित्व वाले कंप्यूटर का परीक्षण कर सकती है। कर्मचारी, कंपनी के किसी भी सॉफ्टवेयर या दस्तावेज के दुरुपयोग से सम्बंधित सूचना अपने विभाग प्रबंधक को दें।

कंपनी की बौद्धिक संपदा और व्यापारिक रहस्य

कंपनी की यह सामान्य नीति है कि जब तक किसी व्यक्ति को कुछ नया प्रतिपादित करने या लेखन करने का पारिश्रमिक नहीं मिल जाता तब तक वह व्यक्ति उस प्रतिपादन अथवा लेखन का स्वामी होता है। “पारिश्रमिक के लिए कार्य” से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार की अवधि में किया गया हो अथवा किसी सामूहिक कार्य में योगदान हेतु आदेशित विशेष कार्य। कंपनी अपने कर्मचारियों को काम के लिए जो भुगतान करती है उसमें कर्मचारियों के द्वारा उत्पादों अथवा प्रणालियों में किये गए सभी सुधार शामिल है चाहे उन्हें लागू किया गया हो अथवा नहीं।

अतः कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विकसित सभी बौद्धिक संपदाओं पर कंपनी का स्वामित्व होगा और उन कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने के पश्चात भी इस संपत्ति पर कंपनी का ही स्वामित्व रहेगा।

हमारे मूर्त एवं अमूर्त व्यापार रहस्य हमारी बौद्धिक संपदा का एक हिस्सा हैं उदाहरण: कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ने हेतु रणनीति। हम अपने वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से हमारे व्यापार रहस्यों को रहस्य बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं।

किसी सलाहकार या स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य अथवा उनके बौद्धिक संपत्ति अधिकारों पर कंपनी अपना स्वामित्व नहीं रखती जब तक कि इस संदर्भ में उनके साथ कम्पनी का कोई लिखित अनुबंध न हो।

गोपनीयता

सभी पक्षों को हमारे व्यापार रहस्यों और बौद्धिक संपदा की गोपनीयता का सम्मान करना आवश्यक है।

कम्पनी अपनी किसी भी सूचना, व्यापार रहस्य अथवा बौद्धिक संपदा के दुरुपयोग के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।